

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड-1
PART II—Section 1

प्रारिधकार सं प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५७] नई दिल्ली चैरवार, दिसम्बर १५, १९६६/अग्रहायण २४, १८८८ (शफ)
No. ५७] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 1966/Agrahayana 24, 1888(S)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW
(Legislative Department)

New Delhi, the 15th December, 1966/Agrahayana 24, 1888 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 15th December, 1966, and is published for general information:—

THE PREVENTIVE DETENTION (CONTINUANCE)

ACT, 1966

NO. 48 OF 1966

[15th December, 1966]

An Act to continue the Preventive Detention Act, 1950, for a further period.

Be it enacted by Parliament in the Seventeenth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Preventive Detention (Conti- Short
nuance) Act, 1966. title.

Amend-
ment
of sec-
tion 1.

2. In sub-section (3) of section 1 of the Preventive Detention Act, 1950, for the figures, letters and words "31st day of December, 1966," the figures, letters and words "31st day of December, 1969," shall be substituted. 4 of 1950.

S. P. SEN-VARMA,
Secy. to the Govt. of India.